



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 74]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 19, 2008/माघ 30, 1929

No. 74]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 19, 2008/MAGHA 30, 1929

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2008

सं. 3/2008-सेवाकर

सा.का.नि. 94(अ).—वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 41/2007-सेवाकर तारीख 6 अक्टूबर, 2007 [सा.का.नि. 645(अ)], जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में तारीख 6 अक्टूबर, 2007 को प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है; अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में क्रम सं. 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)
“10. धारा 65 (105) (च)	समय की दृष्टि से संवेदनशील दस्तावेज, सामान या वस्तुओं को भारत के बाहर किसी गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में किसी निर्यातक को किसी कूरियर एजेंसी द्वारा दी गई सेवा।	(i) कूरियर रसीद, जिसमें कूरियर की प्रकृति, कूरियर का गंतव्य स्थान, कूरियर प्राप्तकर्ता का नाम और पता सहित विनिर्दिष्ट हो (ii) निर्यात माल में कूरियर सेवा के प्रयोग के संबंध में निर्यातक साक्ष्य प्रस्तुत करता है।	
11. धारा 165 (105) (ययत)	हटाए जाने वाले स्थान से सीधा इंग्लैंड कंटेनर डिपो अथवा बन्दरगाह अथवा विमानपत्तन, जहाँ से माल का निर्यात किया जाता है, तक निर्यात माल के परिवहन के संबंध में निर्यातक को प्रदान की गई सेवाएं	(i) हटाए जाने वाले स्थान से इंग्लैंड कंटेनर डिपो अथवा बन्दरगाह अथवा विमानपत्तन, जहाँ से माल का निर्यात किया जाता है, तक निर्यात माल का सीधा परिवहन किया जाता है, (ii) निर्यात माल के संबंध में निर्यातक को जारी बीजक में इंग्लैंड कंटेनर डिपो अथवा बन्दरगाह अथवा विमानपत्तन, जहाँ से माल का निर्यात किया जाता है, का नाम दर्शाया जाएगा,	

(1)	(2)	(3)	(4)
12. धारा 65 (105) (य य यत)	हटाए जाने वाले स्थान से सीधा इंग्लैंड कंटेनर डिपो अथवा बन्दरगाह अथवा विमानपत्तन, जहाँ से माल का निर्यात किया जाता है, तक निर्यात माल के परिवहन के संबंध में निर्यातक को प्रदान की गई सेवाएं	(iii) निर्यात माल के संबंध में निर्यातक के बीजक का ब्यौरा लॉरी रसीद और उसके शिपिंग बिल में विशिष्ट रूप से उल्लिखित होगा।	(iv) निर्यातक प्रतिदायक दावा में निर्यात से अलग उद्देश्यों के संबंध में उक्त सेवा प्रदाता से प्राप्त उक्त सेवाओं का ब्यौरा देगा।
		(i) हटाए जाने वाले स्थान से इंग्लैंड कंटेनर डिपो अथवा बन्दरगाह अथवा विमानपत्तन, जहाँ से माल का निर्यात किया जाता है, तक निर्यात माल का सीधा परिवहन किया जाता है,	
		(ii) निर्यात माल के संबंध में निर्यातक को जारी बीजक में इंग्लैंड कंटेनर डिपो अथवा बन्दरगाह अथवा विमानपत्तन, जहाँ से माल का निर्यात किया जाता है, का नाम दर्शाया जाएगा,	
		(iii) निर्यात माल के संबंध में निर्यातक के बीजक का ब्यौरा लॉरी रसीद और उसके शिपिंग बिल में विशिष्ट रूप से उल्लिखित होगा।	
		(iv) निर्यातक प्रतिदायक दावा में निर्यात से अलग उद्देश्यों के संबंध में उक्त सेवा प्रदाता से प्राप्त उक्त सेवाओं का ब्यौरा देगा।	

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 341/15/2007-टी आर यू]

उन्मेष बाघ, अवर सचिव

टिप्पण :- मूल अधिसूचना सं. सा.का.नि. 645(अ), दिनांक 6 अक्टूबर, 2007 के जरिए भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित हुई थी और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं. 42/2007-सेवा कर, दिनांक 29 नवम्बर, 2007 के जरिए किया गया था जो सं. सा.का.नि. 739(अ), दिनांक 29 नवम्बर, 2007 के जरिए भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित हुई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2008

No. 3/2008—Service Tax

G.S.R. 94(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 41/2007-Service Tax, dated the 6th October, 2007 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) by number G.S.R. 645(E) dated the 6th October, 2007, namely :—

In the said notification, in the Schedule, after Sr.No. 9 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)
"10. Section 65(105) (f)	Services provided by a courier agency to an exporter in relation to transportation of time-sensitive documents, goods or articles relating to export, to a destination outside India.		(i) the receipt issued by the courier agency specifies the importer-exporter (IEC) code number of the exporter, export invoice number, nature of courier, destination of the courier including name and address of the recipient of the courier, and (ii) the exporter produces evidence to link the use of courier service to export goods.
11. Section 65(105) (zzp)	Services provided to an exporter in relation to transport of export goods directly from the place of removal, to inland container depot or port or airport, as the case may be, from where the goods are exported.		(i) export goods are transported directly from the place of removal to inland container depot or port or airport, as the case may be, from where the goods are exported, (ii) invoice issued by the exporter in relation to export goods shall indicate the name of the inland container depot or port or airport from where the goods are exported, (iii) details of exporter's invoice relating to export goods are specifically mentioned in the lorry receipt and the corresponding shipping bill, (iv) exporter shall declare in the refund claim indicating whether such service has been received from the said service provider for purposes other than for export.
12. Section 65(105) (zzp)	Services provided to an exporter in relation to transport of export goods directly from the place of removal to inland container depot or port or airport, as the case may be, from where the goods are exported.		(i) export goods are transported directly from place of removal to inland container depot or port or airport from where the goods are exported, (ii) invoice issued by the exporter in relation to export goods shall indicate the inland container depot or port or airport from where the goods are exported, (iii) details of exporter's invoice relating to export goods are specifically mentioned in the lorry receipt and the corresponding shipping bill, (iv) exporter shall declare in the refund claim indicating whether such service has been received from the said service provider for purposes other than for export."

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 341/15/2007-TRU]

UNMESH WAGH, Under Secy.

Note :— The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 645(E) dated the 6th October, 2007 and was last amended by notification No.42/2007-Service Tax, dated the 29th November, 2007 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) by number G.S.R. 739(E), dated the 29th November, 2007.